

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या} - & \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \frac{1}{5 \times 6} + \dots + \frac{1}{9 \times 10} \\ & = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \\ & = \frac{1}{2} - \frac{1}{10} = \frac{5}{10} - \frac{1}{10} = \frac{4}{10} \Rightarrow \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & 999\frac{1}{7} + 999\frac{2}{7} + 999\frac{3}{7} + 999\frac{4}{7} + 999\frac{5}{7} + 999\frac{6}{7} \\
 & = 999 \times 6 + \left(\frac{1}{7} + \frac{2}{7} + \frac{3}{7} + \frac{4}{7} + \frac{5}{7} + \frac{6}{7} \right) \\
 & = 5994 + \left(\frac{21}{7} \right) \\
 & = 5994 + 3 \Rightarrow 5997
 \end{aligned}$$

- 10.** $999\frac{98}{99} \times 99$ बराबर है—

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007, 2009, 2010

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2002, 2004, 2008, 2010

उत्तर—(a)

$$\text{व्याख्या} - \frac{98}{99} \times 99 = \frac{98999}{99} \times 99$$

$$= 98999$$

11. सरल करने पर गुणनफल

$$\left(2 - \frac{1}{3}\right) \left(2 - \frac{3}{5}\right) \left(2 - \frac{5}{7}\right) \dots \left(2 - \frac{997}{999}\right)$$
किसके बराबर होगा?

(a) $\frac{1001}{999}$ (b) $\frac{1001}{3}$
(c) $\frac{5}{3}$ (d) $\frac{5}{999}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008, 2015

उत्तर—(b)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याप्ति} - & \left(2 - \frac{1}{3}\right) \left(2 - \frac{3}{5}\right) \left(2 - \frac{5}{7}\right) \dots \left(2 - \frac{997}{999}\right) \\
 & = \frac{5}{3} \times \frac{7}{5} \times \frac{9}{7} \times \dots \times \frac{1001}{999} \\
 & = \frac{1001}{3}
 \end{aligned}$$

12. $999\frac{1}{7} + 999\frac{2}{7} + 999\frac{3}{7} + 999\frac{4}{7} + 999\frac{5}{7} + 999\frac{6}{7}$
का सरलतम रूप है-

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

$$\begin{aligned}
 & \text{व्याख्या} - \frac{\left(3\frac{1}{3} - 2\frac{1}{2}\right) \div \frac{1}{4}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{9}} \times \frac{1}{5} \\
 &= \frac{\left(\frac{10}{3} - \frac{5}{2}\right) \div \frac{5}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{9} \times \frac{1}{5}} \times \frac{4}{3} \\
 &= \frac{\left(\frac{5}{6}\right) \div \frac{5}{8}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{45}} \times \frac{4}{3} \\
 &= \frac{\frac{5}{6} \times \frac{8}{5}}{\frac{16}{45}} \times \frac{4}{3} \\
 &= \frac{180}{48} \times \frac{4}{3} \Rightarrow 5
 \end{aligned}$$

वित्त भिन्न-आधारित

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $0.\overline{39} = \frac{39}{99} = \frac{3939 - 39}{9900}$

$$= \frac{3900}{9900} = \frac{13}{33} \quad (\because 0.\overline{abcd} = \frac{abcd - ab}{9900})$$

15. $\frac{p}{q}$ के रूप में $1.\overline{27}$ बराबर होगा—

(a) $\frac{127}{100}$

(b) $\frac{73}{100}$

(c) $\frac{14}{11}$

(d) $\frac{11}{14}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001, 2010

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2005, 2006

उत्तर—(c)

व्याख्या— $1.\overline{27} = 1\frac{27}{99}$

$$= \frac{126}{99} = \frac{14}{11}$$

16. $\frac{p}{q}$ के रूप में संख्या $0.121212\dots$ बराबर होगी।

(a) $\frac{4}{11}$

(b) $\frac{2}{11}$

(c) $\frac{4}{33}$

(d) $\frac{2}{33}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— $0.121212\dots = 0.\overline{12}$

$$= \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$$

$$\therefore \frac{p}{q} = \frac{4}{33}$$

17. $\frac{1}{11}$ बराबर है—

(a) 0.009

(b) 0.09

(c) $0.\overline{09}$

(d) $0.0\overline{09}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{1}{11} = 0.090909\dots$

$$= 0.\overline{09}$$

प्रकार-3

भिन्न-आधारित इबारती प्रश्न

18. एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से $\frac{9}{20}$ अधिक है। वह भिन्न क्या है?

(a) $\frac{5}{4}$

(b) $\frac{4}{5}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) $\frac{4}{3}$

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 19 अगस्त, 2017 (III-पार्टी)

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना वह भिन्न x है।

$$\therefore \text{भिन्न का व्युत्क्रम} = \frac{1}{x}$$

प्रश्नानुसार

$$\therefore x - \frac{1}{x} = \frac{9}{20}$$

$$x^2 - 1 = \frac{9x}{20}$$

$$20x^2 - 9x - 20 = 0$$

$$20x^2 - 25x + 16x - 20 = 0$$

$$5x(4x - 5) + 4(4x - 5) = 0$$

$$(4x - 5)(5x + 4) = 0$$

$$\therefore 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{4} \text{ तथा } 5x + 4 = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{5}$$

अतः विकल्पानुसार भिन्न $\frac{5}{4}$ होगी।

Trick—

$$\text{विकल्प (a) से— } \frac{5}{4} - \frac{4}{5} = \frac{25 - 16}{20} = \frac{9}{20}$$

19. एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग $13/3$ है। वह भिन्न क्या है?

(a) $4/3$

(b) $3/4$

(c) $5/4$

(d) $4/5$

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पार्टी)

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 18 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना भिन्न x है।

$$\therefore \text{भिन्न का व्युत्क्रम} = \frac{1}{x}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{1} + \frac{4}{x} = \frac{13}{3}$$

(c) $\frac{3}{10}$

(d) $\frac{3}{14}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005

उत्तर-(d)

व्याख्या— माना मूल भिन्न $\frac{x}{y}$ है।

अब प्रश्न से -

$$\frac{x+x \times \frac{200}{100}}{y+y \times \frac{150}{100}} = \frac{9}{35}$$

$$\frac{x+2x}{y+1.5y} = \frac{9}{35}$$

$$\frac{3x}{2.5y} = \frac{9}{35}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{9 \times 2.5}{35 \times 3}$$

$$= \frac{3 \times 2.5}{35} \Rightarrow \frac{3}{14}$$

Trick—

$$\begin{aligned} \frac{x}{y} \times \frac{300}{250} &= \frac{9}{35} \\ &= \frac{\frac{x}{y} \times 6}{5} = \frac{9}{35} \\ &= \frac{x}{y} = \frac{3}{14} \end{aligned}$$

26. एक धनात्मक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 11 है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न में $\frac{1}{24}$ की वृद्धि हो जाती है। भिन्न के अंश और हर में अंतर है-

(a) 5

(b) 3

(c) 1

(d) 9

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर-(c)

व्याख्या— माना भिन्न का अंश x है।

$$\therefore \text{हर} = 11 - x$$

अब प्रश्न से

$$\frac{x+2}{(11-x)+2} - \frac{x}{(11-x)} = \frac{1}{24}$$

$$\frac{x+2}{(13-x)} - \frac{x}{(11-x)} = \frac{1}{24}$$

$$\frac{(x+2)(11-x) - x(13-x)}{(13-x)(11-x)} = \frac{1}{24}$$

$$24(11x + 22 - x^2 - 2x - 13x + x^2) = 143 - 13x - 11x + x^2$$

$$264x + 528 - 24x^2 - 48x - 12x + 24x^2 = 143 - 24x + x^2$$

$$528 - 96x = 143 - 24x + x^2$$

$$\text{अतः } x^2 + 72x - 385 = 0$$

या $x^2 + 77x - 5x - 385 = 0$

$$x(x+77) - 5(x+77) = 0$$

$$(x+77)(x-5) = 0$$

जब $x+77 = 0$ तब $x = -77$ (जो संभव नहीं है)

$\therefore x-5 = 0$ तब $x = 5$

∴ अंश = 5

अतः हर = $11 - 5 \Rightarrow 6$

अतः अंश एवं हर का अंतर = $6 - 5 \Rightarrow 1$

27. एक भिन्न का हर, उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है?

(a) 5 (b) 13

(c) 17 (d) 19

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर-(b)

व्याख्या— माना अंश x है।

$$\therefore \text{हर} = x+3$$

अब प्रश्न से-

$$\frac{x+7}{x+3-2} = 2$$

$$x+7 = 2x+2$$

$$x=5$$

∴ अंश एवं हर का योग = $5 + (5 + 3) \Rightarrow 13$

28. यदि किसी धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा स्वयं भिन्न का

अंतर $\frac{9}{20}$ हो, तो वह भिन्न होगा—

(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{3}{10}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{5}{4}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर-(c)

व्याख्या— विकल्प (a) से, $\frac{5}{3} - \frac{3}{5} \neq \frac{9}{20}$

विकल्प (b) से, $\frac{10}{3} - \frac{3}{10} \neq \frac{9}{20}$

विकल्प (d) से, $\frac{4}{5} - \frac{5}{4} \neq \frac{9}{20}$

परंतु विकल्प (c) से, $\frac{5}{4} - \frac{4}{5} = \frac{9}{20}$

अतः भिन्न $\frac{4}{5}$ होगा।

38. $5/7, 7/9$ तथा $11/13$ में से सबसे बड़ी भिन्न कौन-सा है?

- (a) $5/7$
- (b) $7/9$
- (c) $11/13$
- (d) सभी बराबर हैं।

S.S.C. ऑफलाइन मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 17 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{5}{7} = 0.71429, \frac{7}{9} = 0.777, \frac{11}{13} = 0.846$

अतः $\frac{11}{13}$ सबसे बड़ी भिन्न है।

Trick—

दिए गए सभी भिन्नों के अंशों एवं हरों में 2 का समान अंतर है।
अंशों एवं हरों के समान अंतर होने पर सबसे बड़ी संख्या की भिन्न सबसे छोटी संख्या की भिन्न सबसे छोटी होती है।

अतः भिन्न $\frac{11}{13}$ सबसे बड़ी भिन्न होगी।

39. यदि $\sqrt{y} = 4x$ है, तो $\frac{x^2}{y}$ है-

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (a) $\frac{1}{16}$ | (b) $\frac{1}{4}$ |
| (c) 4 | (d) 2 |

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sqrt{y} = 4x$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$\therefore y = 16x^2$$

$$\therefore \frac{x^2}{y} = \frac{1}{16}$$

40. यदि $a = \frac{3}{5}, b = \frac{7}{9}$ और $c = \frac{5}{7}$, तो-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) $a < b < c$ | (b) $b < c < a$ |
| (c) $a < c < b$ | (d) $c < b < a$ |

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— $a = \frac{3}{5} = 0.6, b = \frac{7}{9} = 0.77, c = \frac{5}{7} = 0.71$

$$\therefore a < c < b$$

Trick—

यदि अंश तथा हर की संख्याओं का अंतर समान हो, तो संख्याओं का आरोही या अवरोही क्रम उसके अंश की संख्याओं के क्रम में होगा।
अर्थात् $3 < 5 < 7$

या $a < c < b$

41. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $\frac{1}{2} > \frac{2}{3} > \frac{3}{4} > \frac{4}{5}$

(b) $0 > \frac{7}{17} > \frac{3}{7} > \frac{3}{5}$

(c) $\frac{7}{24} > \frac{1}{3} > \frac{3}{8} > \frac{5}{12}$

(d) $0.5 < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \left(\frac{16}{25}\right)^{0.5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— विकल्प (d) से

$$0.5 < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \left(\frac{16}{25}\right)^{0.5} = 0.5 < 0.667 < 0.75 < \sqrt{\frac{16}{25}}$$

$$= 0.5 < 0.667 < 0.75 < \frac{4}{5}$$

$$= 0.5 < 0.667 < 0.75 < 0.80$$

अतः विकल्प (d) सही है।

42. भिन्नों $\frac{15}{16}, \frac{19}{20}, \frac{24}{25}, \frac{34}{35}$ में सबसे छोटी भिन्न है-

(a) $\frac{34}{35}$ (b) $\frac{15}{16}$

(c) $\frac{19}{20}$ (d) $\frac{24}{25}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2001, 2010

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\frac{15}{16} = .937, \frac{19}{20} = .95$

$$\frac{24}{25} = .96, \frac{34}{35} = .971$$

अतः सबसे छोटी भिन्न $\frac{15}{16}$ है।

Trick—

यदि दो गई भिन्नों में अंश एवं हर में समान अंतर हो, तो सबसे छोटी संख्याओं से बड़ी भिन्न का मान सबसे कम होता है। अतः

दो गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न $= \frac{15}{16}$